



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1941 (श०)

(सं० पटना 88) पटना, सोमवार, 3 फरवरी 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद  
विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना

20 सितम्बर 2019

सं० 898—श्री राम जानकी मन्दिर ग्राम—कोदरकट्टा, पो०+थाना—बासोपट्टी, जिला—मधुबनी पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—969 है। इस न्यास के अस्थायी न्यासधारी श्री सियाराम दास को मठ की भू—सम्पत्ति के अवैध बिक्रय तथा पर्वदीय आदेशों/निर्देशों के अनुपालन में विफल रहने के कारण पर्वदीय ज्ञापांक—2005, दिनांक—20.02.2019 द्वारा न्यासधारी के पद से अपसारित (पदच्युत) किया गया। साथ ही पर्वदीय पत्रांक—2006, दिनांक—26.02.2019 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी जयनगर, जिला—मधुबनी से उक्त मन्दिर की व्यवस्था एवं मन्दिर की भूमि की रक्षा हेतु एक न्यास समिति के गठन हेतु कम—से—कम 7 एवं अधिकतम 11 हिन्दु धर्म के सभी वर्गों से ईमानदार, प्रतिष्ठित, स्वच्छ व्यक्तियों का नाम (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पदनाम सहित) मांगा गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर जिला—मधुबनी ने अपने पत्रांक—203/रा०, दिनांक—12.06.2019 द्वारा उक्त पर्वदीय आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, बासोपट्टी के पत्रांक—643, दिनांक—07.06.2019 द्वारा उपलब्ध कराए गए संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर कुल चयनित 11 सदस्यों का नाम भेजा है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो न्यास की उपविधि 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मन्दिर ग्राम—कोदरकट्टा, पो०+थाना— बासोपट्टी, जिला—मधुबनी के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण करता हूँ तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी मन्दिर, ग्राम—कोदरकट्टा, पो०+थाना—बासोपट्टी, जिला—मधुबनी न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी मन्दिर, ग्राम—कोदरकट्टा, पो०+थाना—बासोपट्टी, जिला—मधुबनी न्यास समिति” होगी जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण, संरक्षण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेशित प्रतिवेदन, कार्य वृत्त एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- |  |              |
|--|--------------|
| (1) श्री दुलार मंडल, पिता-श्री युगेश्वर मंडल         | — अध्यक्ष    |
| (2) श्री विजय कुमार साह पिता- श्री अमरनाथ प्रसाद साह | — सचिव       |
| (3) श्री राम हृदय मंडल, पिता-श्री महेन्द्र मंडल      | — कोषाध्यक्ष |
| (4) श्री विनोद कुमार मंडल, पिता-स्व० राम अवतार मंडल  | — सदस्य      |
| (5) श्रीमती रेखा देवी, पति-श्री ललित मंडल            | — सदस्य      |
| (6) श्री सुनिल राम, पिता- स्व० महेश्वर राम           | — सदस्य      |
| (7) श्री भोगेन्द्र साह, पिता- स्व० मिश्री साह        | — सदस्य      |
| (8) श्री धुरण मंडल, पिता- श्री रामपति मंडल           | — सदस्य      |
| (9) श्री मिथिलेश मंडल, पिता-श्री रतनेश्वर मंडल       | — सदस्य      |
| (10) श्री रामईश्वर मंडल, पिता- श्री चन्देश्वर मंडल   | — सदस्य      |
| (11) श्री रामबाबू मंडल, पिता- स्व० पच्चु मंडल        | — सदस्य      |

सभी सा०-कोदरकट्टा, थाना-बासोपट्टी, जिला-मधुबनी

यह योजना तत्काल प्रभावी होगा और इसका कार्यकाल 05 वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में न्यास समिति की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,  
अखिलेश कुमार जैन,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 88-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>